



# भाखडा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड

सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़-160019



प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 31.05.2014

विषय: बीबीएमबी स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया ।





चण्डीगढ़ : आज दिनांक 30.05.2014 को बीबीएमबी सामूदायिक केन्द्र सैक्टर-2 तलवाड़ा टाऊनशिप में बीबीएमबी स्थापना दिवस बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया । ब्यास परियोजनाओं के कार्य को भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड को स्थानान्तरित करने पर भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड का गठन 15 मई, 1976 को हुआ । तब से प्रत्येक वर्ष इस पावन दिवस को बीबीएमबी स्थापना दिवस के रूप में बड़े ही हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है ।

भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड उत्तर भारत की सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन की एक उत्कृष्ट संस्था है जो कि उत्तर भारत की

एक करोड़ पच्चीस लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करती है तथा 2900.73 मेगावाट विद्युत उत्पादन करके राष्ट्र की सेवा कर रही है ।

इस अवसर पर सर्व प्रथम माननीय अध्यक्ष बीबीएमबी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा बांध स्थल पर शहीदी स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजली अर्पित की गई । उसके बाद स्थानीय बीबीएमबी सामूदायिक केन्द्र में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर माननीय अध्यक्ष बीबीएमबी श्री ए० बी० अग्रवाल अपने अध्यक्षीय भाषण में बीबीएमबी के कार्यों पर प्रकाश डाला । उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2013-14 के दौरान बीबीएमबी द्वारा विद्युत उत्पादन के लक्ष्य को दिसम्बर माह में लगभग नौ माह में ही पूरा कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है । बीबीएमबी द्वारा विद्युत क्षेत्र में सराहनीय कार्य निष्पादन हेतु भारत सरकार के मंत्रालय एवं अन्य संगठनों से प्राप्त किये गये अवार्डों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया । इस मौके पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बीबीएमबी में उत्कृष्ट सेवा के लिए बीबीएमबी के 61 अधिकारियों व कर्मचारियों को स्वर्ण पदक एवं नगद पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर बीबीएमबी के विभिन्न परियोजनाओं के स्कूलों के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया ।

इस समारोह में सदस्य/विद्युत ई० अशोक थापर, सदस्य/सिंचाई ई० एस.एल.अग्रवाल, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी श्री भारत

भूषण (IES), ई0 जय देव मुख्य अभियंता/ब्यास बांध एवं बीबीएमबी के विभिन्न परियोजनाओं एवं बोर्ड सचिवालय चण्डीगढ़ के अन्य अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे । अंत में ई0 भुपिन्दर सिंह, उप मुख्य अभियंता/मुख्यालय, ब्यास बांध द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।